



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2010/पौष 29, 1931

No. 35]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2010/PAUSA 29, 1931

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 42(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित निदेशक जनगणना कार्य के कार्यालय में (उप-निदेशक, जनगणना कार्य) भर्ती नियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित निदेशक जनगणना कार्य के कार्यालयों में उप-निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय (उप-निदेशक, जनगणना कार्य समूह 'क') पद भर्ती, नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड एवं ग्रेड पे	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	----------------------	-----------------------------	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप-निदेशक जनगणना कार्य	55*(2010) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-पी.बी. 3 15600-39100 रुपये, ग्रेड पे 6600 रुपये	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के आधार पर द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)	(12)
------	------

(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन।

प्रोन्नति :—

- I. पे बैंड पीबी-3 15600-39100 रुपये, ग्रेड पे 5400 रुपये में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/नृविज्ञान/समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक डिग्री धारक हों और ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों जिसके न होने पर सहायक निदेशक, जनगणना कार्य और कार्यालय अधीक्षक (पे बैंड पीबी-2 9300-34800 रुपये ग्रेड पे 4200 रुपये) के ग्रेड में संयुक्त रूप से दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों और सहायक निदेशक, जनगणना कार्य के ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों;
- II. पे बैंड पीबी-3 15600-39100 रुपये, ग्रेड पे 5400 रुपये में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों जिसके न होने पर सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) और सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-1 (पे बैंड पीबी-2 9300-34800 रुपये, ग्रेड पे 4600 रुपये) के ग्रेड में संयुक्त रूप से सात वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों और सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों;
- III. पे बैंड पीबी-3 15600-39100 रुपये, ग्रेड पे 5400 रुपये में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों जिसके न होने पर सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) और अन्वेषक (सामाजिक अध्ययन) ग्रेड-1 (पे बैंड पीबी-2 9300-34800 रुपये,

(12)

ग्रेड पे 4200 रुपये) के ग्रेड में संयुक्त रूप से दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों और सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों;

टिप्पणी 1 : संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सहायक निदेशक, जनगणना कार्य के पद धारित व्यक्ति को स्नातक डिग्री की शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

टिप्पणी 2 : ऐसे मामले में जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से आधे से ज्यादा या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए उन्होंने अपने कनिष्ठों जो ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके हों सहित अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

टिप्पणी 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए 1-1-2006/वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा की गई नियमित आधार पर सेवा को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड पीबी-3 15600-39100 रुपये ग्रेड पे 5400 रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; या

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/नृविज्ञान/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष;

(ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण/विश्लेषण/संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

प्रशासन/लेखा संबंधी मामलों/स्थापना संबंधी मामलों में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1 : फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी

(12)

ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। इसमें एक समान ग्रेड पे या वेतनमान में एक से अधिक संशोधन से पूर्व के वेतनमान का विलय शामिल नहीं है और यह लाभ केवल उन्हीं पदों पर मिलेगा जहां किसी उन्नयन के बगैर ग्रेड पे/वेतनमान को सामान्यतः प्रतिस्थापित किया गया है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है,
तो उसकी संरचना

भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति
(प्रोन्नति पर विचार के लिए) :

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति करते समय
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य
3. भारत के अपर महारजिस्ट्रार/
भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य

[फा. सं. ए-16011/29/2000-प्रशा. 2/प्रशा. 5]

डॉ. च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2010

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in the States and Union Territories (Deputy Director of Census Operations) Recruitment Rules, 2002, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Census Operations, in the office of the Registrar General, India, and in the offices of the Director of Census Operations in the States and Union Territories, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Director of Census Operations in the States and Union Territories (Deputy Director of Census Operations Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay (Rs.)	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director of Census Operations	55* (2010) *Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band- PB-3 Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 6600	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Not applicable	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
(11)				(12)		
(i) 75% by promotion failing which by deputation				Promotion : I. Assistant Director of Census Operations in the Pay Band PB-3 of Rs. 15600-39100 Grade Pay of Rs. 5400, possessing a Bachelor's degree from a recognized University with Statistics/Mathematics/Economics/Commerce/Anthropology/Sociology as a subject and five years' regular service in grade failing which ten years' combined regular service in the grades of Assistant Director of Census Operations and Office Superintendent (Pay Band PB-2 of Rs. 9300-34800 Grade Pay of Rs.4200) and two years' regular service in the grade of Assistant Director of Census Operations ; II. Assistant Director of Census Operations (Technical) in the Pay Band PB-3 of Rs. 15600-39100 Grade Pay of Rs. 5400 with five years' regular service in the grade failing which seven years' combined regular service in the grade of Assistant Director of Census Operations (Technical) and Statistical Investigator Grade I (Pay Band PB-2 of Rs. 9300-34800 Grade Pay of Rs. 4600) and two years' regular service in the grade of Assistant Director of Census Operations (Technical);		
(ii) 25% by deputation/absorption						

(12)

III. Assistant Director of Census Operations (Technical) in the Pay Band PB-3 of Rs. 15600-39100 Grade Pay of Rs. 5400 with five years' regular service in the grade failing which ten years combined regular service in the grades of Assistant Director of Census Operations (Technical) and Investigator (Social Studies) Grade-I (Pay Band PB-2 of Rs. 9300-34800 Grade Pay of Rs. 4200) and two years regular service in the grade of Assistant Director of Census Operations (Technical).

Note 1: Persons holding the post of Assistant Director of Census Operations on regular basis on the date of notification of the revised rules are exempted from the requirement of possessing the educational qualification of a Bachelor's degree.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation/absorption : Officers under the Central Government / State Governments/Union Territories :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band PB-3 Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential :

(i) Masters' degree from a recognized University in Statistics/Mathematics/Economics/Commerce/Anthropology/Sociology.

(ii) Five years' experience in Tabulation/Analysis/Collection of Statistical data.

Desirable: Two years' experience in Administration/Accounts matters/Establishment matter.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the

(12)

same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on Deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

- | | |
|---|------------|
| 1. Registrar General, India | — Chairman |
| 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs | — Member |
| 3. Additional Registrar General, India/Joint Registrar General, India | — Member |

Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointing an officer on deputation or absorption.

[F. No. A-16011/29/2000-Ad-II/Ad-V]

Dr. C. CHANDRAMOULI, Registrar General
& Census Commissioner, India & ex-officio Jt. Secy.